

an>

Title: Need to start morning and evening air services from Delhi and Mumbai to Jodhpur and from Jodhpur to Chennai and Bangalore.

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : महोदया, मैं आपका ध्यान राजस्थान के जोधपुर शहर की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान के लिए केवल जोधपुर हवाई अड्डा ही एकमात्र हवाई अड्डा है। जोधपुर सहित पाली, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही आदि जिलों में बसने वाले लोग इसी हवाई अड्डे के द्वारा यात्रा करते हैं। यह पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है, जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बाड़मेर में रिफाइनरी व औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास के कारण हवाई यात्रा की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। हवाई अड्डे का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए जमीन भी अधिगृहीत की जा चुकी है। वर्तमान में प्रतिदिन दिल्ली-जोधपुर-दिल्ली व मुम्बई-जोधपुर-मुम्बई के आने-जाने के लिए दो-दो हवाई सेवाएँ ही उपलब्ध हैं, जो दिन में 12 बजे से 3 बजे के मध्य ही हैं। इसके अतिरिक्त जोधपुर से कहीं और जाने के लिए कोई भी सीधी हवाई सेवा नहीं है। जबकि आई.आई.टी., एम्स, इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल लॉ स्कूल हैं, इसके अतिरिक्त यहां हैंडीक्राफ्ट व गंवार गम का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट होने के साथ-साथ सोलर व पवन ऊर्जा के केंद्र स्थापित हैं। इन जिलों के प्रवासी बड़ी तादाद में देश के कोने-कोने में विशेषकर बेंगलुरु, मुम्बई, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली व अहमदाबाद आदि में बसे हैं और इनका आवागमन निरन्तर रहता है। हवाई सुविधा त्वरित न होने की वजह से इन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि दिल्ली व मुम्बई से जोधपुर हेतु प्रातः व सांयकालीन हवाई सेवा प्रारम्भ करने तथा जोधपुर से चेन्नई व बेंगलुरु के लिए भी हवाई सेवा प्रारम्भ करने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष :

श्री देवजी एम.पटेल अपने आपको श्री पी.पी. चौधरी जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।